

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

10 जून 2020

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी पोज़िशन बरकरार रखी: सब्जेक्ट रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नालजी विभाग ने सुधार किया

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने लगातार तीसरे साल, प्रतिष्ठित कैकरेलेरी साइमंड्स (क्यूएस) विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग -2021 में अपनी पोज़िशन बरकरार रखी। क्यूएस रैंकिंग में विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, जामिया ने 751-800 के रैंक में अपना स्थान बनाए रखा।

जामिया को आईआईएससी और आईआईटी श्रेणी में पंद्रहवां स्थान मिला है और भारत के विश्वविद्यालयों में छठा।

लंदन आधारित टाइम्स हायर एजुकेशन सब्जेक्ट रैंकिंग -2020 में, जामिया ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में पिछले साल के 601-800 के बीच पाए अपने स्थान में, इस साल सुधार करते हुए 401-500 की रैंकिंग में जगह बनाई है। यह सीधे 200 रैंक का उछाल है। भारत में सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में इसका स्थान 11वां है जबकि विश्वविद्यालयों में यह दूसरे पायदान पर है।

जामिया को कंप्यूटर साइंस के लिए दुनिया भर के शीर्ष संस्थानों की सूची में पहली बार 501-600 में जगह दी गई है, जबकि भारतीय संस्थानों में इसे 16 वें और भारतीय विश्वविद्यालयों में 7 वें स्थान पर रखा गया है।

लाइफ साइंसेज़ में जामिया को दुनिया के पैमाने पर 401-500 वें स्थान पर रखा गया है, जबकि भारतीय संस्थानों में 7 वें और भारतीय विश्वविद्यालयों में नंबर 4 पर रखा गया है।

फिजिकल साइंस में जामिया ने पिछले साल के 601-800 के मुकाबले इस बार 501-600 के समूह में अपनी जगह बनाई है, जो कि 100 पायदान का सुधार है। भारत के भीतर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में इसका रैंक 15 है जबकि विश्वविद्यालय श्रेणी में इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है।

विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो नजमा अख्तर ने, वर्ल्ड रैंकिंग के साथ-साथ सब्जेक्ट रैंकिंग में जामिया के लगातार अच्छे प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उच्च गुणवत्ता वाली रिसर्च, अच्छी पढ़ाई, कालिटी पब्लिकेशन और फैकल्टी के बेहतर छात्र अनुपात पर विश्वविद्यालय के फोकस को दर्शाता है।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया समन्वयक